


30th Institute Management Committee Virtual Meeting

30th Institute Management Committee virtual meeting was held on 14 August 2020 under the chairmanship of director Dr. Nita Khandekar. This was attended by Dr. S. K. Jha, AGD (O&P), Dr. Akshay Talukdar from, IARI, New Delhi, Dr. M. P. Jain, Director (Research), from RVSKVV, Gwalior, Dr. Manoranjan Mohanty from Indian Institute of Soil Science Bhopal, Dr. S. V. Saiprasad, from ICAR-IARI Regional Station, Indore. Mr. R. S. Sengar, ADA, FTC Department of Agriculture, Indore and Dr. Anita Rani, Dr. Sanjay Gupta, S. D. Billore, Dr. Mahaveer Prasad Sharma and Mr. Ravindra Kumar from the institute. The meeting was also attended by the Farmers' representative Mr. Bansilal Gurjar of Mansore (MP).

At the beginning, the member secretary, welcomed all the member of the committee and presented a brief about the activities and achievements of last year. The agenda items were presented and discussed in the meeting. All the members appreciated the achievements of the Institute. At the end, chairman thanked all the members for active participation and fruitful suggestions for enhancing productivity of soybean and increasing the visibility and extension activity of the Institute.

आज दिनक १४.०८.२०२० को संस्थान प्रबंधन समिति की बैठक निदेशक नीता खांडेकर की अध्यक्षता में संपन्न हुई . इसमें डा. संजीव कुमार झा, सहायक महानिदेशक, भा. कृ. अनु. परिषद, डा. अक्षय तालुकदार, प्रधान वैज्ञानिक, आई ए आर आई , नई दिल्ली, डा. एम पी जैन, राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर, डॉ. मनोरंजन मोहंती, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, भोपाल, डा. एस वी साईप्रसाद, प्रमुख, आई ए आर आई क्षेत्रीय केंद्र, इंदौर श्री आर एस सेंगर, कृषि विभाग, इंदौर तथा संस्थान के प्रधान वैज्ञानिकों डा. अनीता रानी, डा. संजय गुप्ता, डा. एस दी. बिल्लोरे, डॉ. महावीर प्रसाद शर्मा एवं वित्त एवं लेखा अधिकारी श्री रवीन्द्र कुमार ने भाग लिया. किसान प्रतिनिधि के तौर पर मंसौर जिले के श्री बंशी लाल गुर्जर सम्मिलित हुए. बैठक के आरम्भ में सदस्य सचिव डा मनोज कुमार श्रीवास्तव द्वारा सभी सदस्यों का


परिचय एवं स्वागत किया गया एवं पिचले वर्ष की गतिविधियों एवं उपलब्धियों की जानकारी सभी सदस्यों को दी गई. समिति के समक्ष इस बैठक के एजेंडों को प्रस्तुत किया गया तथा उन पर चर्चा की गई. संस्थान की उपलब्धियों की सभी सदस्यों ने सराहना की. अंत में अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यों की सक्रिय भागेदारी, बहुमूल्य सुझावों एवं सोयाबीन की उत्पादकता बढ़ाने के उपायों पर चर्चा के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया.



Item No.8.1 B: IT items

S. No.	Name of Equipment	Estimated cost/unit	Qty.	Estimated cost/unit (in Rs.)
1	Laptops Specifications: Processor-Intel i7 RAM-8 GB or more HDD-1 TB or more Full HD display	65,000	3	1,95,000
2	Digital Note Book for data recording	10,000	10	1,00,000
Total				2,95,000

The screenshot shows a Zoom meeting interface. On the left, a presentation slide titled 'Item No.8.1 B: IT items' displays a table with two items: Laptops and Digital Note Books. On the right, a grid of participants is visible, including several men and one woman, all appearing to be engaged in the meeting. The Zoom status bar at the bottom indicates the meeting is in progress.



Additional Agenda Item

Type one quarters (02) are vacant and any permanent staff has not applied for its allotment.

It is proposed that, Young Professionals of the institute may be allotted these quarters on seniority basis on payment of 16% of Stipend/ Fellowship along with License fees, for its proper utilization and maintenance.

If agreed, the proposal may be sent to ICAR for approval.

The screenshot shows a Zoom meeting interface. On the left, a presentation slide titled 'Additional Agenda Item' contains text regarding vacant quarters and a proposal for allotting them to Young Professionals. On the right, a grid of participants is visible, including several men and one woman, all appearing to be engaged in the meeting. The Zoom status bar at the bottom indicates the meeting is in progress.